

वी.यू. भी स्वच्छ भारत ग्रीष्मकालीन इंटरशिप अभियान में भाग लेगा
ग्रामवासियों को गोबर, गौ मूत्र से बने उत्पादों, मच्छर कुंडली तथा गौ मूत्र
आसवन की विधि समझायेंगे- डॉ. जुयाल



भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित 'स्वच्छ भारत समय (ग्रीष्म कालीन) इंटरशिप 2018' के अंतर्गत ग्राम सालीवाडा गौर में नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर यह कार्यक्रम संचालित करेगा। विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति डॉ. प्रयाग दत्त जुयाल ने आज पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, जबलपुर के इंटरशिप छात्रों को संबोधित करते हुये कहा कि इसमें हमें बड़ चढ़ कर भाग लेना है एवं ग्राम सालीवाडा गौर में दस दिवसीय कार्यक्रम आयोजित कर इसे सफल बनाना है। डॉ. गौर द्वारा सालीवाडा गौर गांव में बारे में विस्तृत जानकारी दी। स्वच्छता के साथ साथ आर्थिक स्थिति में भी सुधार

डॉ. जुयाल ने बताया कि हमें ग्रामवासियों को गोबर एवं गौ मूत्र निष्पादन की जानकारी प्रदान करना है। गोबर गमला, मच्छर कुंडली तथा गौ मूत्र आसवन की विधि ग्रामवासियों को समझाना है जिससे वो आर्थिक लाभ कमा सके। गांव बड़े तो देश बड़े व रोजगार के अवसर मिलेंगे।

इस दस दिवसीय कार्यक्रम में पशुपालन संबंधी जानकारी जिसमें टीकाकरण, प्राथमिक उपचार, आहार पोषण, रोग निदान, पशुशाला की सफाई, पशुजन्य रोग, रेबीय जागरूकता, व्यक्तिगत सफाई, स्वच्छता, नशामुक्ति, शिक्षा, दहेजप्रथा, नारी उत्पीडन एवं हिंसा, बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं जागरूकता प्रदान की जायेगी। ग्रामीणों को उन्नत एवं विकसित किसानों के स्थानों का भ्रमण एवं अवलोकन कराया जायेगा जिससे पशुओं से उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों के द्वारा खाद एवं बायोगैस बनाने की विधियों को स्वयं अपना सके।

आज कार्यक्रम में डीन डॉ. एस.एन.एस. परमार, डॉ. एस.के. नायक, डॉ. आर.के. शर्मा, डॉ. ओ.पी.श्रीवास्तव, डॉ. ए.के. गौर, डॉ. डी.के. गुप्ता तथा डॉ. अमिता तिवारी की उपस्थिति थी।

सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी
ना.दे.प.चि.वि.वि., जबलपुर
9329291280